



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361]
No. 361]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 1983/श्रावण 29, 1905
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 1983/ SRAVANA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1983

का० आ० 602(अ):- केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 4/3/73-वक्फ तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के [जो भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17 जनवरी 1976 में अधिसूचना सं० का० आ० 247, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के रूप में प्रकाशित की गई थी] साथ पठित, वक्फ अधिनियम 1954 (1954 का 29) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 131, तारीख 9 मार्च, 1982 और सं० का० आ० 288 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा यथासंशोधित; भारत सरकार के विधि, न्याय और कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 68 (अ), तारीख 9 फरवरी, 1982 द्वारा 619 GI/83

निर्दिष्ट व्यक्ति से परामर्श करके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए, जिनका उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या अनुपालन किया जा सकेगा, श्री के० शेख अहमद को, उस तारीख से ही, जिसको उस पद का भार ग्रहण करते हैं, एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है। श्री खलीक अहमद, अनुभाग अधिकारी, विधायी विभाग जिनको उक्त पद के अतिरिक्त पंजाब वक्फ बोर्ड का सचिव, अधिसूचना सं० का० आ० 332 (अ), तारीख 26-4-1983 द्वारा नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति की अवधि, अधिसूचना सं० का० आ० 382 (अ), तारीख 30-5-83 का० आ० 477 (अ), तारीख 28-6-1983, और का० आ० 527 (अ) तारीख 27-7-83 द्वारा बढ़ाई गयी थी, उस तारीख से, जिसको श्री शेख अहमद उस पद का भार ग्रहण करते हैं, पंजाब वक्फ बोर्ड के सचिव के रूप में अपने अतिरिक्त कर्तव्यों से मुक्त हो जायेंगे।

[सं० 4(2)/83-वक्फ]

एन० आर० सुब्रह्मण्यन,
संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND
COMPANY AFFAIRS**

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 1983

S.O. 602(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf, dated 30 December, 1975 [published as notification No. S.O. 247, dated, 30 December, 1975 in the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated 17 January, 1976] the Central Government, in consultation with the person directed by the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 68 (E), dated 9th February, 1982, as amended by the notifications of the Government of India in the

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 131(E), dated, 9th March, 1982 and No. S.O. 288 (E) dated 11 April, 1983 to exercise and perform all the powers and duties which may, by or under the provisions of the said Act, be exercised or performed by or on behalf of the Punjab Wakf Board, hereby appoints Shri K. Sheikh Ahmed, as Secretary of the Punjab Wakf Board for a period of one year on and from the date he assumes charge of that office.

2. Shri Khaleeq Ahmad, Section Officer, Legislative Department who was appointed additionally as Secretary, Punjab Wakf Board by notification No. S.O. 332(E) dated 26-4-1983 and whose appointment was extended through notifications Nos. S.O. 383(E) dated 30-5-1983, S.O. 477 (E) dated 28-6-1983 and S.O. 527 (E) dated 27-7-83 would stand relieved of his additional duties as Secretary, Punjab Wakf Board from the date Shri Sheikh Ahmed resumes charge of that office.

[F. No. 4(2)/83-Wakf]

N. R. SUBRAMANYAN, Joint Secy.